

CH306

Roll No. : .....

2018

## CEMENT AND FERTILISER TECHNOLOGY

निर्धारित समय : तीन घंटे

[अधिकतम अंक : 70]

Time allowed : Three Hours]

[Maximum Marks : 70]

**नोट :** (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिये।

**Note :** Question No. 1 is compulsory, answer any FIVE questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये।

Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये।

Start each question on fresh page.

(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the language.

1. निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

Answer the following questions :

(i) विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के नाम लिखिए।

Write name of different types of fertilizer.

(ii) एन.पी.के. का पूरा नाम लिखिए।

Write the full name of N.P.K.

(iii) अमोनियम फॉस्फेट बनाने में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थों का नाम लिखिए।

Write the name of raw materials used for making Ammonium phosphate.

(iv) सिंथेसिस गैस के मुख्य घटक लिखिए।

Write main constituents of Synthesis gas.

(v) सीमेण्ट को परिभाषित कीजिए।

Define cement.

(2×5)

2. सीमेण्ट के बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए।

Explain the manufacturing process of cement with diagram.

(12)

(1 of 2)

P.T.O.

3. फ्लोशीट की सहायता से यूरिया बनाने की विधि को लिखिए।

Write process of manufacturing urea with the help of flowsheet. (12)

4. एन पी के उर्वरकों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थों एवम् उसके बनाने की विधि का वर्णन कीजिए।

Explain raw materials used in N.P.K. fertilizer and manufacturing process of N.P.K. (12)

5. (i) फ्लस्क घटकों के बारे में एवं उनके सीमेन्ट फंक्शन को समझाइए।

Explain flux ingredients and their function of cement.

(ii) फॉस्फोरिक अम्ल के बनाने की विधि के बारे में लिखिए।

Write the manufacturing process of phosphoric acid. (6+6)

6. पोटैशियम नाइट्रेट के बनाने की विधि एवम् उसमें प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थों का वर्णन कीजिए।

Discuss the manufacturing process of potassium nitrate and raw material used. (12)

7. (i) किल्न ऊष्मा संतुलन एवं ऊर्जा उपभोग को समझाइए।

Explain the Kiln heat balance and energy consumptions.

(ii) सीमेट की गुणवत्ता नियन्त्रण को विस्तार से समझाइए।

Explain the quality control of cement in detail. (6+6)

8. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

Explain the following in brief :

(i) पोटैशियम क्लोराइड

Potassium chloride

(ii) सीमेण्ट का जमना

Settling of cement

(iii) ट्रिप्ल सुपर फॉस्फेट

Triple super phosphate

(4×3)